



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]
No. 508]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2007/कार्तिक 29, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2007/KARTIKA 29, 1929

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2007

सा. का. नि. 722(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल उप कमांडेंट (परिवहन) और सहायक कमांडेंट (परिवहन) भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल उप कमांडेंट (परिवहन) और सहायक कमांडेंट (परिवहन) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल उप कमांडेंट (परिवहन) और सहायक कमांडेंट (परिवहन) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में, सहायक कमांडेंट (परिवहन) के पद से संबंधित क्रम सं. 2 में,—

(i) स्तंभ (11) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें सशस्त्र बल कार्मिकों का प्रतिनियुक्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन भी सम्मिलित है।”;

(ii) स्तंभ (12) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“प्रतिनियुक्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर

सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।”

[फा. सं. आई-12011/2/2003-संग.]

श्याम जिंदल, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 826(अ) तारीख 18 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 456(अ), तारीख 4 जुलाई, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2007

G.S.R. 722(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (Transport) and Assistant Commandant (Transport) Recruitment Rules, 2002 namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (Transport) and Assistant Commandant (Transport) Recruitment Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (Transport) and Assistant Commandant (Transport) Rules, 2002, in serial number 2 relating to the post of Assistant Commandant (Transport):—

- (i) in column (11), for the existing entry under the heading “50% by promotion failing which by deputation inclusive of deputation or re-employment of the armed forces personnel”, the following entry shall be substituted, namely:—

“50% by promotion failing which by deputation inclusive of deputation followed by re-employment of the armed forces personnel.”;

- (ii) in column (12), for the existing entry under the heading “For Ex-servicemen- Deputation or re-employment”, the following entry shall

be substituted, namely:—

“Deputation followed by re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualification prescribe for deputationists shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces personnel; thereafter they may be continued on re-employment.”.

[F. No. I-12011/2/2003-Org]

SHYAM JINDAL, Director (Pers)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary *vide* number G.S.R.826(E), dated the 18th December, 2002 and subsequently amended by G.S.R. 456 (E) dated the 5th July, 2005.